



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

20 पौष 1934 (श0)  
(सं0 पटना 60) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जनवरी 2013

---

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

7 जनवरी 2013

सं0 नि०प्रा०/नि० 1-19/2012-30—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा इलाहाबाद बैंक कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड की प्रबंधन समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

और, चूँकि उक्त सहकारी समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबंधन समिति में अध्यक्ष के 1 (एक), उपाध्यक्ष के 1 (एक), सचिव के 1 (एक) एवं निदेशक के 10 (दस) पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है और निदेशक के पदों में 1 (एक) स्थान पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1) कोटि के सदस्यों के लिए 1 (एक) स्थान पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2) कोटि सदस्यों के लिए, 2 (दो) स्थान महिला कोटि के सदस्यों के लिए तथा 2 (दो) स्थान अनुसूचित जाति कोटि/ अनुसूचित जनजाति कोटि के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार इलाहाबाद बैंक कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड की प्रबंधक समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं निदेशक के पदों के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 09.02.2013 की तिथि नियत करता है तथा समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति की प्रबंधन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार के पत्र संख्या 9647 दिनांक 15.10.2012 सह पठित पत्रांक 10051 दिनांक 18.12.2012 के

आलोक में कट-ऑफ-तिथि 30.11.2012 के आधार पर तैयार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पटना-सह-निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 31.12.2012 को किया जा चुका है।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधन समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र-1 ( **परिशिष्ट-2** ) में सूचना दिनांक 11.01.2013 को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक 09.02.2013 को पूर्वाह्न 7 बजे से आरंभ होगा एवं अपराह्न 2 बजे तक चलेगा। मतगणना उसी दिन मतदान समाप्ति के यथाशक्य शीघ्र बाद आरंभ की जायेगी।

अध्यक्ष, इलाहाबाद बैंक कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से भी सभी मतदाताओं को निर्वाचन कार्यक्रम से निश्चित रूप से अवगत करा दें।

आदेश से,  
एन० एस० माधवन,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 60-571+50-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>